



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा



Candidate's Roll No. In English

(In Figures)

--	--	--	--	--	--	--

(In Words)

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में

शब्दों में

नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी ☒ अंग्रेजी ☐

विषय लेखाशास्त्र

परीक्षा का दिन

दिनांक

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्रश्नांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जाएगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायाँ ओर निर्धारित कॉलम में लाल इक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसी पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ 15.14 को 16, 17.12 को 18, 19.74 को 20)


प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15		प्रश्न अंकों का कुल योग (Round off)	
16		प्रश्नों में	शब्दों में
17			
18			

परीक्षक के हस्ताक्षर

संकेतार्थ

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निष्पत्ति में 58 सीएसएम कोडवाच काम में हो चुका है। 164/2018



परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
 - (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 - (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये।
 - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केलक्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
 - (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस-पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
 - (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सकें प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।



प्रश्न संख्या	प्रश्न	परीक्षार्थी उत्तर
1	एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम सदस्यों की संख्या ^{आधिकतम} 50 है।	
2	Plant a/c Dr. 5000 To Revaluation a/c 5000	
3	साझेदार की निवृत्ति पर संयुक्त बीमा पॉलिसी खाता चिह्न में शेयर समर्पण मूल्य पर दिखाया जाता है। ^{साझेदारों के}	
4	दो विधियाँ = (1) समय के आधार पर (2) विक्रय के आधार पर	
5	Realisation a/c Dr. To Bank a/c [Unrecorded liabilities]	
6	आग्रेस मांग = 12% वार्षिक व्याज दर	
7	Bank a/c Dr. Loss on Issue of Debenture a/c Dr. To 12% Deb. app. a/c To Securities Premium a/c To Premium on Redemption of 12% Debenture a/c	
8	Joint Venture with Co-venture के Dr. पक्ष में	

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

9.

~~Workmen~~~~A/c Capital Dr. 6000~~~~B/c Capital Dr. 4000~~~~To Workmen Compensation 10,000~~~~reserve a/c~~~~[Old Ratio 3:2 in Old Partners]~~

10.

संयुक्त साहस एवं साझेदारी में अंतर

आधार	संयुक्त साहस	साझेदारी
(1) पंजीयन	संयुक्त साहस में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है।	साझेदारी में पंजीयन की आवश्यकता होती है।
(2) उद्देश्य	संयुक्त साहस का उद्देश्य निश्चित कार्य या अवधि तक व्यवसाय करना है।	साझेदारी का उद्देश्य निरन्तर व्यवसाय संचालन करना है।
(3) सदस्य	संयुक्त साहस में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सहसाहसी कहा जाता है।	साझेदारी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को साझेदार कहा जाता है।
(4) आधिनियम	संयुक्त साहस में कोई आधिनियम लागू नहीं होता है।	साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है।



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
11		माल भेजने पर (बिजक मूल्य पर) (1) Consignment a/c Dr. To Goods Sent on Consignment a/c उभाव खत्म करने पर. (2) Goods sent on Consignment a/c Dr. To Consignment a/c [अंतर की राशि से] असामान्य हानि का उभाव खत्म (3) Consignment a/c Dr. To Abnormal loss a/c [अंतर की राशि] बचे माल का उभाव खत्म करने पर (4) Consignment a/c Dr. To Stock Reserve a/c
12.		Normal Commission = Total Sales = ₹ 70,000 = 70,000 × $\frac{5}{100}$ = 3500 Ans. Overriding Commission = Sales on invoice price = ₹ 60,000 Actual Sales = ₹ 70,000 Overriding Price = 10,000 Comm. = 10,000 × $\frac{20}{100}$ = 2000 Ans.

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

13.

Receipt & Payment ac.

Receipt	Amount	Payment	Amount
To Sale on fixed Assets	xxx.	By Purchased Book	xxx.

(1) वकाया बेतन -

(2) वकाया ध्यान -

समायोजन अथवा चक्षु निम्न खाते में
नहीं दर्शाये जाएंगे।

14.

Income & Expenditure ac.

Expenditure	Amount	Income	Amount
		By Entrance fee	xxx

सामान्यतः उवेश शुल्क के संबंध में कोई सूचना न होनेपर
उसे आयगत प्रकृति की मद माना जाएगा
[CBSE के अनुसार]

Balance Sheet

Capital fund	
Add: Legacies xx.	xxx.



विवेक द्वारा प्रश्न संख्या परीक्षार्थी उत्तर

15.

P&L appropriation a/c
for the year ended 31 March 2017.

Particulars	Amount	Particulars	Amount.
To Int. on Capital.		By Net Profit	47200
Rashmi - 2500	4000		
Pintu - 1500			
To Rashmi Commission	4000		
To Pintu Commission	3920		
To General Reserve	3528		
To Profit (BIF)	31752		
Rashmi - 15876			
Pintu - 15876			
	47200		47200

P&L a/c

Particulars	amt.	Particulars	Amount.
To Int. on loan	2000	By Gross Profit	49200
[20,000 x $\frac{10}{100}$]	1200		
To Net Profit (BIF)	47200		
	49200		49200

16.

P.T.O. →



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

16

J.L.P. a/c

Date	Particulars	Amount	Date	Particulars	Amount
1-4-13	To Bank	7000	31-3-14	By P&L a/c	7000
			31-3-14	By Bal. c/d	-
		7000			7000
1-4-15	To Bank	7000	31-3-15	By P&L a/c	4000
			31-3-15	By Bal. c/d	3000
		7000			7000
1-4-15	To Bal. b/d	3000	31-3-16	By P&L a/c	2000
1-4-15	To Bank	7000	31-3-16	By Bal. c/d	8000
		10000			10000
1-4-16	To Bal. b/d	8000	31-3-17	By P&L a/c	5000
1-4-16	To Bank	7000	31-3-17	By Bal. c/d	10000
		15000			15000
1-4-17	To Bal. b/d	10000	31-3-17	By Insurance Company	100000
1-4-17	To Bank	7000			
31-3-17	To P&L Cap. 33200				
	To P&L Cap. 33200	83000.0			
	To R/S Cap. 16600				
		100000			100000

Note -

मृत्यु पर संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि कंपनी से प्राप्त कर ली गई।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

17.

Realisation a/c

Particulars.	Amount.	Particulars	amt.
To Sundry Assets	100,000	By creditor	63000
To Bank (creditor)	63000	By Bank (Assets)	40000
		By Loss (B/F)	
		P = 20000	60000
		S = 20000	
		T = 20000	
	163000		163000

Partner's Cap. a/c

Particulars	R	S	T	Particulars	R	S	T
To Bal. bld.	-	-	3000	By Bal bld.	20000	20000	-
To Realisat.	20000	20000	20000	By R's Cap.			11500
To T's Cap.	11500	11500		By S's Cap.			11500
				By Bank a/c	11500	11500	
	31500	31500	23000		31500	31500	23000

T कसूलकी न्यूनता = 23000

पूँजी अनुपात = 1:1

$$R = 23000 \times \frac{1}{2} =$$

$$11500 \quad R = 11500$$

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

18.	Items	Heading	Sub-Heading.
(1)	Unclaimed Divident.	Current liabilities	Other-Current Liab-ilities
(2)	Securities Premium.	Share holders fund	Reserve & Surplus
(3)	Proposed Dividend	Current liabilities	Short term Provision
(4)	Acceptances.	Current liabilities	Trade Payables
(5)	Debenture.	Non-Current Liabiti.	Long-term Borrowing
(6)	Calls-in-Advance	Current liabilities	Other Current Liabilities
(7)	Provision for Tax	Current liabilities	Short term Provision
(8)	Prepaid Insurance	Current Assets.	Other Current Assets

19. Memorandum Joint Venture a/c			
Particulars	Amount	Particulars	Amount
To Purchase [K]	40,000	By Sales [K]	45,000
To Purchase [V]	60,000	By Sales [V]	70,000
To Profit (Bif)		By Stock taken [K]	8,000
K-	11,500		
V-	11,500		
	123,000		123,000

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

In the Books of K

Joint Venture with B & Valc

Particulars	Amount	Particulars	Amount
To Bank [Pur.]	40,000	By Bank [Sales]	45000
To P&L acc [Profit]	11500	By Bank [Stock take]	8000
To Bank [Bif]	1500		
	53000		53000

In the Books of V.

Joint Venture with Kalc

Particulars	Amount	Particulars	Amount.
To Bank [Pur.]	60,000	By Bank [Sales]	70000
To P&L [Profit]	11500	By Bank (Bif)	1500
	71500		71500

20.

Abnormal loss's Unit = 10

Cost of Units = $10 \times 2000 = ₹ = 20,000$

add: Consignor's Exp.

 $[5000 \times \frac{10}{100}] = 500$

Cost of Abnormal loss. = 20500

less: Sales of Scrap.

 $[20000 \times \frac{1}{4}]$
5000
15500

less: Insurance company = 10000

Net Abnormal loss = 5500

Ans

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

$$\therefore \text{Total Unsold Unit} = 1000 - 10 - 70 = 20$$

$$\text{Cost of unsold units} = 20 \times 2000 = 40,000$$

add: Consignor expenses

$$\left[5000 \times \frac{20}{100} \right]$$

$$= 1000$$

add: consignee expenses

$$\left[1800 \times \frac{20}{80} \right]$$

$$= 450$$

$$\text{Cost of Unsold Stock} = \underline{41400}$$

Ans.

21.

Expenditure		Income & Expenditure a/c	
Particulars	Amount	Particulars	Amount
To Dep. on Table for. Tennis]	—	By Accrued Interest [18000 - 15000]	3000

Balance Sheet as on 31-3-17

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Games fund- 300,000		12% Game's fund Investment	150,000
add: Donation 40,000			
add: Donation 100,000	258,000		
add Interest 18,000			
less: Exp. - (100,000)			



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

$$\text{Dep} = 100,000 \times \dots$$

[खण्ड व चुना गया]

24

अंतर क्षैतिज विश्लेषण व लम्ब लम्बवत विश्लेषण.

- | | | |
|------------|--|--|
| (1) उपयोगी | यह कालग्रेणी विश्लेषणों में उपयोगी है। | यह पारिच्छेद विश्लेषणों में उपयोगी है। |
| (2) तुलना | यह तुलना का एक अंग है। | यह तुलना का आधार है। |

25. $\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liab.}} = \frac{3}{1}$

यदि Liabilities की Value = 150,000

तो 3 Current Assets की Value = $150,000 \times \frac{3}{1}$

$$\text{Current Assets} = 450,000 \text{ Ans}$$

P.T.O

परीक्षक द्वारा
प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

26.

Trend Percentage

In Lakhs

Year	Revenue from Operations	In. / Decrease in Amount	Percentage
2012-13	20	-	-
2013-14	22	2	10 %
2014-15	25	5	25 %
2015-16	28	8	40 %
2016-17	30	10	50 %

27.

Trade Receivable Turnover Ratio

$$= \frac{\text{Net Credit Sales}}{\text{Average Trade Receivables}}$$

$$= \frac{160,000}{40,000} = 4 \text{ times}$$

Note

$$\text{Net Credit Sales} = 200,000 - 30,000 - 10,000 \\ = 160,000$$

$$\text{Average T.R} = \frac{\text{Op. Trade R} + \text{Clo. TR}}{2}$$

$$= \frac{50,000 + 30,000}{2} = \frac{80,000}{2}$$

$$= 40,000$$



परीक्षक द्वारा प्रश्न प्रदत्त अंक

परीक्षार्थी उत्तर

29. लेखांकन में नैतिकता के चार स्रोत =

(1) कानून प्रणालियाँ -

विभिन्न कानून प्रणालियाँ नैतिक कर्तव्यों के पालन में आधार प्रदान करती हैं। आज कानून शासन में नैतिकता पालन के लिए अग्रणी भूमिका है।

(2) दर्शन शास्त्र -

विभिन्न महात्माओं, वैज्ञानिकों ने नैतिक मूल्यों तथा अवयवों के संबंध में दर्शन प्रणालियाँ विकसित की हैं जो नैतिकता का अमूल्य स्रोत हैं।

(3) धर्म -

विभिन्न धार्मिक परम्पराएँ, रीति रिवाज, व संस्कृति नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। कोई भी धर्म यह नहीं कहता है कि असत्य बोलो, चोरी करो,

(4) आचार संहिता -

विभिन्न आचार संहिताएँ भी नैतिकता का प्रमुख स्रोत हैं। सामान्यतः ये ~~सभी~~ प्रकार की होती हैं -

- (1) कम्पनी की परिचालन नीतियाँ
- (2) कम्पनी आचार संहिता
- (3) पेशेवर आचार संहिता

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

28

~~Comparison~~Statement of Profit & Loss. for the
year ended 2016-17.

Particulars	Note No	2016	2017	Percentage of 2016	Percentage of 2017
1	2	3	4	5	6
I Revenue from Operations		20,00,000	24,00,000	100	100
II Total Revenue		20,00,000	24,00,000	100	100
III Expenses					
(a) Purchase of Stock in-T		12,00,000	16,00,000	60	66.67
(b) Change in Inventories		20,000	200,000	10	8.33
(c) Depreciation		2,40,000	2,00,000	12	8.33
(d) Other expenses		1,60,000	1,00,000	8	4.16
Total Expenses		18,00,000	21,00,000	90	87.50
IV Profit Before Tax [II - III]		2,00,000	3,00,000	10	12.5
V Less: Income Tax		60,000	90,000	3	3.7
VI Profit After Tax [IV - V]		1,40,000 1,40,000	2,10,000	7	8.750

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

22.

Revaluation a/c

Particulars	Amount	Particulars	Amount.
To Patent	10,000	By Building	5000
		By Typewriter	2000
		[unrecorded Asset]	
		By Profit (loss/b/f)	
		A - 2000	3000
		B - 1000	
	10,000		10,000

Partner's Capital a/c

Particulars	A	B	C	Particulars	A	B	C
To Reval.	2000	1000		By Bal. b/d.	40,000	30,000	-
To Cash.	2400			By General Re.	6000	3000	-
To Bal. c/d.	56000	34400	17200	By Goodwill	10,000	-	-
	51600	34400		By Cash.			17200
				By Cash.	-	2400	-
	56000	35400	17200		56000	35400	17200

Balance Sheet as on 1st Apr. 2017

Liabilities	Amount	Assets	Amount.
Capital -		Cash at Bank	37200
A = 56600		Building	35000
B = 34400	106200	Typewriter	2000
C = 17200			



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर			
		Creditor	21000	Debtors	30000
		Ba		Stock	20000
				Sundry Assets	3000
			127200		127200

Working Note

① व्याग अनुपात = $A = \frac{2}{3} - \frac{3}{6} = \frac{4-3}{6} = \frac{1}{6}$

$B = 1 - \frac{1}{6} - \frac{2}{6} = \frac{2-2}{6} = \frac{0}{6} \times$

B व्याग नहीं करेगा।

② A व B की समायोजित पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी

$$54000 + 32000 = 86000$$

$$A + B \text{ का भाग} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\text{कुल पूंजी} = \frac{5}{6} \times 86000 = 17200 \times 6 = 103200$$

नयी फर्म की पूंजी में C का भाग

$$103200 \times \frac{1}{6} = 17200$$

$$A \text{ का भाग} = 103200 \times \frac{3}{6} = 51600$$

$$B \text{ का भाग} = 103200 \times 2 = 36400$$



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

⑦ नए साझेदार की पूंजी की गणना पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर की गई तथा इसकी पूंजी New Ratio में होगी।

$$\begin{aligned} \text{Cash} &= 10,000 + 10,000 + 17,200 + 2,400 - 2,400 \\ \text{of Bank} &= 37,200 - 0 \\ &= 37,200 \end{aligned}$$

अथवा

23. Details

app = 10 allot = 40 [20+20] I & lost call = 70
a

Share I Group	Return
app = 12000 X 10 = 120000	3000 X
app = 2000 X 10 = 20000	
Extra 100000	
allot = 2000 X 40 = 80,000	
Extra 20000	
I call = 2000 X 70 = 140,000	

Journal of R Ltd.

Date	Particulars.	LF	Debit	Credit.
	Bank a/c Dr.		330,000	
	To Equity Share app. a/c			330,000
	[33000 X 10]			
	Equity Share app. a/c Dr.		200,000	
	To Equity Share Cap a/c			200,000
	[20,000 X 10]			



परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Equity Share app alc Dr.

30,000

To Bank

30,000

[30000 X 10]

Equity Share app alc Dr.

100,000

To Equity Share allot.

80,000

To Calls in Advance.

20,000

Equity Share allot. alc Dr.

80,000

To Securities Premium

400,000

To Equity Share Cap.

400,000

[20,000 X 20]

Bank alc Dr.

720,000

Equity Share app alc Dr.

80,000

To Equity Share allot.

800,000

Equity Share I call & last
alc Dr.

1400,000

To Equity Share Cap.

1400,000

[20,000 X 70]

Bank alc Dr.

1380,000

Calls in Advance alc Dr.

20,000

To Equity Share I
& last call.

1400,000

रीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

30

$$(i) \text{ Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current liabilities}}$$

$$= \frac{800,000}{400,000} = 2:1 \text{ Ans}$$

$$\text{Current Assets} = 800,000$$

$$\text{Cu. Liab} = 400,000$$

(ii)

$$\text{Gross Profit Ratio} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Net Sales}} \times 100$$

$$= \frac{800,000}{2400,000} \times 100$$

Working Note -

$$= 33.3\% \text{ Ans}$$

$$\text{Cost of goods Sold} = \text{Op. Stock} + \text{Purchase} + \text{Direct Exp} - \text{Cl. Stock.}$$

$$= 190,000 + 150,000 + 90,000 - 180,000$$
$$= 1600,000$$

$$\text{Net Sales} = 2400,000$$

$$\text{Gross Profit} = 2 \cdot \text{Net Sales} - \text{Cost of goods Sold}$$
$$= 2400,000 - 1600,000$$
$$= 800,000$$

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

$$\begin{aligned} \text{(ii) Operating Ratio} &= \frac{\text{Operating Cost}}{\text{Net Sales}} \times 100 \\ &= \frac{1680000}{2400000} \times 100 = 70\% \text{ Ans} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Operating Cost} &= \text{COGS} + \text{Operating Exp} - \text{Operating Income} \\ &= 1600000 + 80000 \\ &= 1680000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iv) Net Profit Ratio} &= \frac{\text{Net Profit}}{\text{Net Sales}} \times 100 \\ &= \frac{660000}{2400000} \times 100 = 27.5\% \text{ Ans.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Net Profit} &= \text{Operating Profit} + \text{Non Op. Income} \\ &\quad - \text{Non Op. Expense} \\ &= 720000 - 20000 - 40000 \\ &= 660000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Operating Profit} &= \text{Sales} - \text{Op. Cost} \\ &= 2400000 - 1680000 \\ &= 720000 \end{aligned}$$

(V). ~~to~~ Int. o

$$\begin{aligned} \text{Return on Investment} &= \frac{\text{Profit before Int. Tax}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \\ &= \frac{720000}{1800000} \times 100 = 40\% \text{ Ans.} \end{aligned}$$

क. द्वारा
त. अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

$$\text{Capital Employed} = \text{Non-Current} \overset{\text{Assets}}{\text{Liab}} + \text{Working Capital}$$

$$= \cancel{1400,000} + 400,000$$

$$= 1800,000$$

$$\text{Working Capital} = \text{CA} - \text{CL}$$

$$= 800,000 - 400,000$$

$$= 400,000$$

$$\text{Non Curr. Liab} \text{ Ess.} = \cancel{10,00,000} + 400,000 =$$

$$= 14,00,000$$

$$\text{Total Assets} = 10,00,000 - ?$$

$$\text{A. Profit Before Int \& Tax} = 660,000 + 40,000$$

$$+ 20,000$$


$$= \cancel{720,000}$$

(9) Workmen Compensation Reserve a/c Dr. 10,000

To A's Capital a/c 6,000

To B's Capital a/c 4,000

[Old Ratio 3:2 in Old Partner]



Revaluation alg

Particulars

Amount

Particulars

Partner's Capital a/c.

2007年10月15日



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

मो. २३

15/12/2017